



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]
No. 6]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1978/पौष 17, 1899
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1978/PAUSA 17, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

का०ख० 6(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ और 25 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1978 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. (क) सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के नियम 8 के उपनियम (क) (जिसे इसके बाद उक्त आदेश प्रयोग किया जायेगा) में श्रंक "263.65" को श्रंक "280.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) उक्त आदेश के नियम 8 के उपनियम (ख) में श्रंक "254.65" को श्रंक "271.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) उक्त आदेश के नियम 8 के उपनियम (ग) में श्रंक "231.65" को श्रंक "248.65" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में, खण्ड 11 के उपखण्ड (2), में, शब्द (ii) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ii) कीमत, भाड़ा या सरकार या जनता को प्रदाय के विषय में या खण्ड 8 के द्वितीय पुस्तक के अधीन निर्यात के प्रयोजनों

160 GI/77—1

के लिए या आयात के लिए दी गई समीकरण रियायत के लिए, यदि कोई हो"

[फा० सं० 1-50/77-सीमेंट]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1978

S.O. 6(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 18-G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely :—

1. (i) This order may be called the Cement Control (Amendment) order, 1978.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. (a) In sub-clause (a) of clause 8 of the Cement Control Order, 1967 (hereinafter referred to as the said order) for the figure "263.65" the figure "280.65" shall be substituted.

(b) In sub-clause (b) of clause 8 of the said order, for the figure "254.65" the figure "271.65" shall be substituted.

(c) In sub-clause (c) of clause 8 of the said order, for the figure "231.65" the figure "248.65" shall be substituted.

(11)

3. In the Cement Control order, 1967, in sub-clause (2) of clause 11, for item (ii), the following item shall be substituted namely :—

“(ii) equalising concession, if any, granted in the matter of price, freight, supplies to Government or public or for purposes of export under the second proviso to clause 8 or for import.

[F. No. 1-50/77-Cem]

आदेश

का०आ० 7(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ —

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आयातित सीमेंट निर्यात आदेश 1978 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “सीमेंट” से भारत में आयातित किसी भी प्रकार का सीमेंट अभिप्रेत है किन्तु इसमें तेल-कप सीमेंट और एबेत सीमेंट और रंगीन सीमेंट (घूमर पोर्टलैंड सीमेंट से भिन्न) सम्मिलित नहीं है ;

(ख) “निर्यातक” से सीमेंट निर्यात आदेश, 1967 के अधीन नियुक्त निर्यातक या ऐसा कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया है ;

(ग) “अधिकारी” से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राज्य व्यापार निगम से सीमेंट प्राप्त करता है, किन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग सम्मिलित नहीं है जो खण्ड 3 के अधीन सीमेंट प्राप्त करता है ;

(घ) “व्यवहारी” से अधिकारी से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो थोक या फुटकर, सीमेंट के विक्रय का कारबार करता है।

3. विक्रय या परिवहन करने का निदेश देने की शक्ति —

(1) कोई अधिकारी, केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व-अनुज्ञा के बिना, सीमेंट न तो बेचेगा और न बेचने की अनुज्ञा देगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सीमेंट का विक्रय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को करे या विक्रय के लिए सीमेंट का परिवहन, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, या ऐसे गन्तव्य-स्थानों को परिवहन के उम्र तरीके से, और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर करे जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं।

4. स्टोको का व्ययन करने का निवेश देने की शक्ति —

खण्ड 3 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, सीमेंट के स्टोको के उचित वितरण और व्ययन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी अधिकारी को इस बारे में ऐसे, साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जो आवश्यक हों।

5. लेखाओं आवि का रखना और प्रस्तुत करना :

(1) प्रत्येक अधिकारी, सीमेंट को प्राप्त करने, बेचने, हटाने या उसका परिवहन करने के सम्बन्ध में ऐसी पुस्तके, लेखा और अभिलेख रखेगा, जैसी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे, और

(2) प्रत्येक अधिकारी और सीमेंट को प्राप्त करने, बेचने, हटाने या उसका परिवहन करने के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा वैसा करने की अपेक्षा की जाने पर और ऐसी अवधि के भीतर जिसकी इस निमित्त अनुज्ञा दी जाए,—

(क) सीमेंट प्राप्त करने, बेचने, हटाने और उसके परिवहन के कारबार से सम्बन्धित ऐसी पुस्तके, लेखा, अभिलेखा या अन्य दस्तावेजें प्रस्तुत करेगा, और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा ; और

(ख) ऐसे कारबार से सम्बन्धित ऐसी विवरणियाँ और अन्य जानकारी देगा ; जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

6. कीमत जिस पर अधिकारी सीमेंट का विपणन करेगा :

प्रत्येक अधिकारी स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा एक सीमेंट का विक्रय रेल गंतव्य स्थान रेलवे स्टेशन तक निशुल्क प्रति मीटरी टन 355.28 रु० पर कर सकेगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, पूर्ण और व्ययन महानिदेशालय के माध्यम से सरकार को बेचे गए सीमेंट की कीमत में रिबेट, छूट या कमीशन की अनुज्ञा दे सकेगी :

परन्तु यह और कि अधिकारी द्वारा, ऐसे व्यवहारों की वृद्धि, परिवहन की सबसे सस्ती पद्धति द्वारा या जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्ड 3 के अधीन परिवहन की कोई अन्य पद्धति विनिर्दिष्ट की गई हो वहाँ परिवहन की ऐसी पद्धति द्वारा, भाटे पर उगान व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकारी को की जाएगी।

स्पष्टीकरण इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “रेल गंतव्य स्थान रेलवे स्टेशन तक निशुल्क” अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है गंतव्य स्थान पर कीमत जिसमें वहाँ के सिवाय जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवहन की कोई अन्य पद्धति विनिर्दिष्ट की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवहन व्यय सम्मिलित है।

7. थोक और फुटकर कीमत

(1) अधिकतम कीमत जिस पर सीमेंट किसी व्यवहारी द्वारा (थाक या फुटकर) बेचा जाएगा वह कीमत होगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए, और कोई व्यवहारी सीमेंट का (थोक या फुटकर) विक्रय ऐसी अधिकतम कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा ; और

(2) उपखण्ड (1) के अधीन अधिकतम कीमत नियत करने में, राज्य सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

- (i) खण्ड 6 के अधीन नियत कीमत ;
- (ii) उठाने धरने और परिवहन के प्रभार ;
- (iii) गोदाम प्रभार ;
- (iv) व्यवहारी की लाभ की मात्रा ;
- (v) स्थानीय कर, यदि कोई हो ; और
- (vi) अतिरिक्त सड़क परिवहन प्रभार, जहाँ अनुज्ञात हो।

परन्तु मद् (ii), (iii) और (iv) की बावत प्रभार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, प्रति मीटरी टन बीस रुपये से अधिक नहीं होगा।

8. प्रत्यायोजन :

इस आदेश के अधीन खण्ड 6 के अधीन के सिवाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों का प्रयोग नियंत्रक द्वारा भी किया जाएगा।

[फा० सं० 1-50/77-सीमेंट]

ऐ० महादेवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 7(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Imported Cement Control Order, 1978.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires—

(a) 'Cement' means any variety of cement imported into India but does not include oil-well cement and white cement and coloured cement (other than grey port-land cement);

(b) 'Controller' means the Controller appointed under the Cement Control Order, 1967 or any other officer duly appointed as such by the Central Government by Notification in the Official Gazette;

(c) 'Agent' means the State Trading Corporation of India Limited or any person who acquires cement from the State Trading Corporation but does not include a person or class of persons who acquire(s) cement under clause 3.

(d) 'dealer' means any person other than an Agent, carrying on the business of selling cement, whether wholesale or retail.

3. Power to direct sale or transport.—(1) No Agent shall sell or permit the sale of cement except with the previous permission in writing from the Central Government.

(2) The Central Government may, by order, require any Agent to sell cement to such person or class of persons or to transport cement for sale to such person or class of persons or to such destinations by such mode of transport and on such terms and conditions as may be specified in this behalf.

4. Power to direct disposal of stocks. Without prejudice to the provisions contained in clause 3, the Central Government may, with a view to securing proper distribution and disposal of stocks of cement, issue such orders, general or special, as may be necessary, to any Agent in this regard.

5. Maintenance and Production of accounts, etc.—(1) Every Agent shall keep such books, accounts and records relating to the acquisition, sale, removal and transport of cement as the Central Government may require; and

(2) Each Agent and every person employed by such Agent in connection with the acquisition, sale, removal and trans-

port of cement shall, on being required so to do by the Central Government and within such period as may be allowed in this behalf—

(a) produce and make available for inspection such books, accounts, records or other documents relating to the business of acquisition, sale, removal and transport of cement; and

(b) furnish such returns and other information relating to such business;

as may be specified by the Central Government.

6. Price at which Agent may sell cement :

Every Agent shall, himself or by any person on his behalf, sell packed cement at Rupees 355.28 per metric tonne free on rail destination railway station.

Provided that the Central Government may allow rebate, discount or commission in the price of cement sold to the Government through the Directorate General of Supplies and Disposals.

Provided further that the expenditure incurred by the Agent on freight by the cheapest mode of transport or where any other mode of transport has been specified by the Central Government under clause 3, by such mode of transport in respect of such transactions, shall be reimbursed to the Agent by the Central Government.

Explanation :

For the purposes of this clause, the expression 'free on rail destination railway station' means the price (including the cost of transport by the cheapest mode except where any other mode of transport has been specified by the Central Government under clause 3) at the destination point.

7. Wholesale and retail prices :

(1) The maximum price at which cement may be sold by a dealer (whether wholesale or retail) shall be such as may be fixed by the State Government and no dealer shall sell cement (whether wholesale or retail) exceeding such maximum price; and

(2) In fixing the maximum price under sub-clause (1), the State Government shall have due regard to—

(i) the price fixed under clause 6;

(ii) handling and transport charges;

(iii) godown charges;

(iv) dealer's margin of profit;

(v) local taxes, if any; and

(vi) additional road transport charges where allowed.

Provided that the charges in respect of items (ii), (iii) and (iv) shall not exceed rupees twenty per metric tonne except with the prior approval of the Central Government.

8. Delegation :

All powers exercisable by the Central Government under this Order except under clause 6 shall also be exercisable by the Controller.

[F. No. 1-50/77-Cem.]

I. MAHADEVAN, Jt. Secy.

